

# कार्यालय: प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अमेठी।

पत्रांक:- मे0का0अ0 / विज्ञापन / 2024 / 728

दिनांक: 3/9/2024


## कार्यालय ज्ञाप

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी के विभिन्न विभाग में सीनियर रेजीडेंट के रिक्त पदों पर वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk-in-Interview) के माध्यम से चयन किया जाना है। चयन की प्रक्रिया एन0एम0सी0 मानको की अद्यतन संस्तुति के अनुसार 06 अगस्त 2024 से स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी में प्रधानाचार्य कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से सायं 02:00 बजे तक प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी रू0 500.00 का आवेदन शुल्क बैंक खाता- 42372709215, आई0एफ0एस0सी0 कोड- SBIN0016862 बैंक- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा- मोहनगंज, तिलोई अमेठी में जमा करना सुनिश्चित करें तथा अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों उनकी सत्यापित छायाप्रतियों की 02 सेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं 02 फोटो सहित उपस्थित हों।

S. No.	Name of Specialization	Senior Resident				
		UR	OBC	SC	EWS	ST
1	Ophthalmology	-	01	-	-	-
2	Obs & Gynae	01	-	01	-	-
3	Emergency Medicine	02	02	01	01	-
4	Anatomy	01	01	-	-	-
5	Anaesthesia	02	-	01	-	-
6	OTO Rhino Laryngology	-	01	-	-	-
7	Community Medicine	01	01	-	-	-
8	General Medicine	01	01	01	01	-
9	General Surgery	02	01	01	-	-
10	Pulmonary Medicine	01	-	-	-	-
11	Dermatology	-	01	-	-	-
12	Paediatrics	-	-	01	-	-
13	Pathology	01	01	-	-	-
14	Pharmacology	01	-	01	-	-
15	Physiology	01	01	-	-	-
16	Forensic Medicine	01	01	-	-	-
17	Biochemistry	-	-	01	01	-
18	Microbiology	01	01	-	-	-
19	Radio Diagnosis	-	-	01	-	-
20	Psychiatrics	01	-	-	-	-

नोट:-

1. पदों की संख्या व कटेगरी घट-बढ़ सकती है एवं शैक्षिक योग्यता एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 मानकानुसार।
2. यह नियुक्ति 89 दिन के लिए की जायेगी एवं इनकी कार्यशैली के अनुसार कार्यावधि को 1 वर्ष तक के लिए विस्तार किया जायेगा।

  
प्रधानाचार्य,

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,  
अमेठी।

# कार्यालय: प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी।

Email ID: principalgmcamethi@gmail.com

Website: www.asmcamethi.ac.in

पता:—स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, तिलोई, अमेठी, उ०प्र०

## Application Form for SR/Non PG JR/Tutor

Advertisement Number and Date:- मे०का०अ० / विज्ञापन / 2024 / ..... दिनांक: / / 2024  
Post ..... (The Post for which the application is being made)

1:- Name: - \_\_\_\_\_

2:- Date of Birth :- \_\_\_\_\_ Age/sex: - \_\_\_\_\_

3:- Category GEN/OBC/SC/ST (Enclose Category certificate if required)

4:- Father's Name: - \_\_\_\_\_

5:- M.B.B.S/B.D.S College Name & Duration: - \_\_\_\_\_

(Enclose Attested Photocopy)

6:- PG College Name & Institution \_\_\_\_\_

(Enclose Attested Photocopy)

7:- Experience:- \_\_\_\_\_

(Enclose Attested Photocopy)

8:- Email ID:- \_\_\_\_\_

9:- Address: - \_\_\_\_\_

(Enclose Aadhar card/Pan Card Attested Photocopy)

10:- Contact. No :-(1):- \_\_\_\_\_ as (2):- \_\_\_\_\_

11:- Application Fee:A demand draft of Rs. 500/- (Rs. Five hundred) I favor of "Autonomous State Medical College, Amethi" payable of Amethi is mandatory as application fee. Alternatively application fee of Rs. 500/- (Rs. Five hundred) may deposit online in State Bank of India, Branch Tilo, Amethi. Account no.- 42372709215 IFSC code- SBIN0016862. Proof of which has to be attached along with the application form.

Photo  
Self  
Attested

**Signature of Applicant**

**// Announcement //**

- 1- I certify that the above information given by me is complete and true. In the event of information being false, my application form / appointment letter can be cancelled.
- 2- I certify that I have not been found guilty by any court of any offense of moral decimation nor is there any such case against me in any jurisdiction.

Place .....

Date .....

Full Name and Signature of the Applicant